

48



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23 1966/फाल्गुन 4, 1887

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1966/PHALGUNA 4, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February 1966

S.O. 614.—The following Order made by the President on February 20, 1966, is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President makes, with immediate effect, the following amendments in the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

In the said Rules, in the Second Schedule,—

- (1) under the heading "Ministry of Defence", under the sub-heading "Department of Defence Supplies", after entry 21, the following entry shall be inserted, namely:—

"21A. Development of electronics and coordination amongst its various users.";

- (2) under the heading "Ministry of Industry", entry 11 shall be omitted.

S. RADHAKRISHNAN,

President.

20-2-1966.

[No. 74/7/CF-66.]

RAJESHWAR PRASAD, Jt. Secy.

(513)

